



COVID-19 महामारी के दौरान ब्रैम्पटन में बसंत

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (30 अप्रैल, 2020) – गरमी बढ़ने वाली है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन निवासियों को याद दिलाना चाहती है कि वे COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) महामारी के दौरान शारीरिक दूरी को महत्वपूर्ण समझें। समुदाय में COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए, निवासियों को निम्नलिखित नियमों का पालन करने का अनुरोध किया जाता है। शारीरिक दूरी के नियम का पालन न करने वाले व्यक्तियों पर, [ब्रैम्पटन COVID-19 एमरजेंसी मेजर्स बाइ-लॉ \(Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law\)](#) के अंतर्गत, उल्लंघन के हर अपराध के लिए कम से कम \$500 का और अधिकतम \$100,000 तक का जुर्माना, या एमरजेंसी मैनेजमेंट एंड सिविल प्रोटेक्शन एक्ट (ई.एम.सी.पी.ए.) (Emergency Management and Civil Protection Act) (EMCPA) के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है।

बसंत ऋतु में घर की सफाई और गैराज सेल्स

साल के इस समय पर, निवासी बसंत की सफाई का लाभ उठाने के लिए गैराज सेल्स (रद्दी सामान की बिक्री) आयोजित करना या इनमें हिस्सा लेना चाह सकते हैं। ई.एम.सी.पी.ए. (EMCPA) के अंतर्गत नियमों का पालन करने के लिए, गैराज सेल्स की अनुमति नहीं है क्योंकि ये जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करती हैं। गैराज सेल्स में, प्रयोग किए हुए सामान को छूना और पकड़ना पड़ता है। इनसे सतहों पर COVID-19 ट्रांसफर होने का बहुत बड़ा जोखिम है। गैराज सेल्स को गैर-जरूरी कारोबार माना जाता है। इनसे लोग इकट्ठे होते हैं और शारीरिक दूरी को कायम नहीं रखा जा सकता। यदि एन्फोर्समेंट स्टाफ को किसी भी गैराज सेल्स की सूचना मिलती है, तो वे उल्लंघन पर प्रतिक्रिया करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप जुर्माना भी लग सकता है।

20 अप्रैल से, हर परिवार, कूड़े के दो अतिरिक्त बैग, कूड़ा टैग्स के बिना, कूड़ा उठाने वाले दिन रख सकता है। यदि बहुत ज्यादा कूड़ा है, तो भी उसे बैग्स में ही रखना होगा। कंटेनर या कैन नहीं लिए जाएंगे।

कृपया ध्यान दें कि कूड़ा एकत्र करने वाला स्टाफ, ज्यादा से ज्यादा, दो अतिरिक्त बैग्स ही ले जा सकता है। जिन निवासियों ने बैग टैग्स खरीदे हुए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अगले नोटिस तक उन्हें अपने पास ही रखें।

निवासियों को याद दिलाया जाता है कि अधिक बड़ी वस्तुएं, जो कूड़े के डिब्बे या कूड़े के बैग्स में नहीं रखी जा सकतीं, वे निम्नलिखित जगहों से एकत्र नहीं की जाएंगी:

- पटरी के किनारे पर;
- अपार्टमेंट्स/कोंडोमिनियम्स में; या
- कम्युनिटी रीसाइकलिंग सेंटर्स (सी.आर.सी.) (Community Recycling Centres) (CRCs) पर स्वीकार की जाती हैं।

निवासियों से अनुरोध है कि वे दस्ताने, मास्क और [घर में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी और कूड़ा \(other home healthcare waste\)](#), रीसाइकलिंग वाली वस्तुओं में न डालकर, कूड़े में डालें।



निवासियों से अनुरोध है कि वे डायबिटीज कैंनेडा (Diabetes Canada) के डिब्बों या अन्य चेरिटेबल संगठनों के ड्रॉप ऑफ डिब्बों में कोई भी दान वाली वस्तुएं न डालें। पूरे पील (Peel) क्षेत्र में वे ऊपर तक भर गए हैं। उन्हें वहां से ले जाया नहीं जाएगा। इस समय इन्हें पील क्षेत्र के सी.आर.सी. (Peel CRC) पर भी नहीं लिया जाएगा।

यदि बहुत जरूरी हो कि निवासियों को तुरंत वस्तुओं का निपटान करने के लिए अपने घरों से बाहर जाना पड़े, तो वे बेकार वस्तुएं सी.आर.सी. में ले जा सकते हैं, जहां अगले नोटिस तक, निपटान फीस की छूट दी गई है।

इस समय पील क्षेत्र के सी.आर.सी., इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, टायर, बड़े उपकरण (जैसे स्टोव, फ्रिज और डिशवॉशर) या बहुत बड़ी वस्तुएं स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

समुदाय और स्टाफ की सुरक्षा के लिए, सी.आर.सी. में सेवाएं सीमित रहेंगी। निवासियों को सामान्य प्रतीक्षा समय के मुकाबले अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।

निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे संचालन समय और स्वीकार की जाने वाली वस्तुएं के बारे में बिल्कुल ताज़ा जानकारी के लिए peelregion.ca/waste/community-recycling-centres देखें।

पार्कों में चेरी के फूलों को देखने जाना

निवासियों को याद दिलाया जाता है कि सिटी की निम्नलिखित प्रॉपर्टीज का प्रयोग करने पर पाबंदी है:

- प्लेग्राउंड्स और पार्क में अन्य स्थान;
- बिना जंजीर बांधे कुत्तों के लिए पार्क (डॉग पार्क);
- पिकनिक शेल्टर;
- आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और आउटडोर फिटनेस उपकरण, जिनमें शामिल हैं, स्पोर्ट्स फील्ड्स, बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट्स;
- रेक्रिएशन सेंटर और आसपास के स्थान; और
- पार्किंग लॉट्स।

चेरी के फूलों के खिलने के इस सीजन में, निवासियों से अनुरोध है कि वे उन्हें देखने के लिए दोस्तों और परिवार के साथ एकत्र न हों। COVID-19 के कारण सभी पार्क बंद हैं और शारीरिक दूरी जैसे उपाय लागू हैं। जल्दी ही सिटी, चेरी के फूलों के खिलने के वीडियो साझा करेगी, ताकि निवासी इन्हें अपने घरों में ही देखकर आनंद ले सकें।

बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम

शारीरिक दूरी जैसे उपायों को आवश्यक समझते हुए, सिटी का बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम (Backyard Garden Program) निवासियों को



अपने खुद के घरों में सब्जियां आदि उगाने और अपने घर में उगी सब्जियों को स्थानीय फूड बैंकों और सामुदायिक संगठनों को दान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन, जरूरतमंद लोगों को बराबर भागों में बांटा जाता है, फूड बैंकों और संगठनों से निवेदन फार्म भरवाया जाएगा।

निवासी BramptonGreenCity@brampton.ca पर ईमेल करके निशुल्क सामान (मिट्टी व बीज) मंगवा सकते हैं। सिटी ने अपनी वेबसाइट www.brampton.ca/parks पर इस बारे में ट्यूटोरियल और सुझाव भी साझा किए हैं कि गार्डन की देखरेख कैसे की जाए।

नए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाएगा। जो कारोबारी समुदाय के लिए, बीज और मिट्टी दान के तौर पर दे सकते हैं, उन्हें bramptongreencity@brampton.ca पर ईमेल करने का अनुरोध किया जाता है।

मेयर पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), 4 मई को दोपहर बाद 3:30 बजे, बागबानी विशेषज्ञ, फ्रैंक फेरजिनी "फ्रैंकी फ्लावर्स" (Frank Ferragine) ("Frankie Flowers") और बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम के चेयर और वार्ड्स 2 और 6 के सिटी काउंसलर डग विलैन्स (Doug Whillans) के साथ, Instagram Live (इंस्टाग्राम लाइव) चैट (@patrickbrownont) की मेजबानी कर रहे हैं। निवासियों को बैकयार्ड प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी, बागबानी संबंधी सुझाव प्राप्त करने के लिए, चैट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

रेक्रिएशन एट होम

चूंकि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की सभी फैसिलिटीज, अगले नोटिस तक बंद हैं, इसलिए ब्रैम्पटन रेक्रिएशन (Brampton Recreation) ने रेक्रिएशन एट होम (Recreation at Home) शुरू किया है। यह एक आभासी (वर्चुअल) प्रोग्रामिंग केंद्र है, जो कई प्रकार के वीडियो और प्रिंट करने योग्य ट्यूटोरियल्स पेश करता है, ताकि ब्रैम्पटन वासी घर रहते हुए क्रियाशील रह सकें, मनोरंजन कर सकें और प्रोग्रामों से जुड़े रह सकें। तीन क्षेत्रों: वर्चुअल फिटनेस (Virtual Fitness), एडवेंचर्स एट होम इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स (Adventures at Home in Arts and Crafts) और सीनियर्स डिजिटल कैफे (Senior's Digital Café) में, हर उम्र और रुचि वाले लोगों के लिए डिजिटल स्रोत उपलब्ध हैं। गतिविधियों के लिए www.brampton.ca/recreation पर जाएं। नई सामग्री सप्ताह में एक बार डाली जाएगी।

इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए कि COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए, समुदाय की सहायता के लिए सिटी क्या कर रही है, www.brampton.ca/COVID19 पर जाएं या @CityBrampton को Twitter, Facebook और Instagram पर फॉलो करें।

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca